



© 2022 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

**Read This First**


The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**請先閱讀本說明**

本印表機使用的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會灑出。如果墨水灑到您的衣物或物品上，可能會無法清除乾淨。

**पहले इसे पढ़ें**

इस प्रिंटर की स्याही को सावधानी से संभालना चाहिए। जब स्याही के टैंक भरे हों या स्याही रिफिल को जा रही हो, तो स्याही फैल सकती है। यदि स्याही आपके कपड़े या सामान पर लग जाती है, तो हो सकता है कि यह न छूटे।



Additional items may be included depending on the location. /

視乎不同位置，可能包含額外項目。 /

स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

初裝墨水中有部分墨水用於印字頭墨水設定。這些墨水瓶列印的頁數可能少於隨後使用的墨水瓶。

प्रारंभिक स्याही की बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाली बोतलों की तुलना में इन बोतलों से कुछ कम पेज प्रिंट हों।

**1**

**2** Select the printer setup method.  
選擇印表機設定方法。  
प्रिंटर सेटअप विधि का चयन करें।

**Do you have a smart device?**  
您擁有智慧型裝置嗎？  
क्या आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस है?

Yes.  
是。  
हाँ।

No.  
否。  
नहीं।

Go to section 2.  
前往第 2 節。  
सेक्शन 2 पर जाएं।

Hold down the **⏻** button until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the setup process.  
按住 **⏻** 鍵直到其閃爍。然後使用您的智慧型裝置完成其餘設定流程。  
**⏻** बटन को तब तक दबाए रखें जब तक वह फ्लैश नहीं होती है। इसके बाद बाकी की सेट अप प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करें।

Install Epson Smart Panel.  
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.  
安裝 Epson Smart Panel。  
儘管您將印表機搭配電腦使用，它可協助您設定印表機。

**Epson Smart Panel** लगाएं।  
इससे आपको प्रिंटर सेट करने में मदद मिलेगी, भले ही आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का उपयोग कर रहे हों।

**Epson Smart Panel ?**  
You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.  
您可一邊在智慧型裝置上觀看操作說明，一邊設定印表機。透過使用此應用程式，您可在您的智慧型裝置上遠端控制印表機或透過應用程式執行更多樣的列印。  
आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर निर्देशों को देखते समय भी प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं। ऐप का उपयोग करके आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर प्रिंटर को नियंत्रित कर सकते हैं या ऐप के जरिए ज्यादा विविधतापूर्ण प्रिंटिंग कर सकते हैं।

**2**

Follow these instructions if you selected "No" in section 1 — **2**.  
如果您在 1 — **2** 節選取「否」，請遵循這些操作說明。  
अगर आपने सेक्शन 1 — **2** में "नहीं" चुना है, तो इन निर्देशों का पालन करें।

**1**

Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.  
確保大容量墨水槽的顏色與您要填充的墨水顏色匹配。  
सुनिश्चित करें कि स्याही टैंक का रंग स्याही के उस रंग से मेल खाता है जिसे आप भरना चाहते हैं।

**2**

- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottles that came with your printer.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- 保持墨水瓶直立，取下瓶蓋；否則墨水將洩漏。
- 使用印表機隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固範圍內的損壞。

**3** Check the upper line in the ink tank.  
檢查大容量墨水槽內的最髙標示線。  
स्याही टैंक की उपरी लाइन की जांच करें।

**4** Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.  
將墨水瓶直插入填充口以填充墨水至最高標示線。  
स्याही को उपरी लाइन तक भरने के लिए स्याही बोतल को सीधे पोर्ट में डालें।

- When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.
- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; as doing so may cause ink to leak or damage the printer when the ink rises above the upper line.
- Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- 當您將墨水瓶插入正確顏色的填充口時，墨水開始流入，當墨水達到最高標示線時，會自動停止流入。
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水瓶。然而，在墨水已達到最高標示線時，請勿取出和插入墨水瓶，因為這麼做可能會在墨水高於最高標示線時，導致墨水滲漏或損壞印表機。
- 墨水可能剩餘在墨水瓶中。剩餘的墨水可稍後使用。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會受損或墨水可能會漏出。

**5** When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.  
當墨水達到大容量墨水槽的最髙標示線時，拔出墨水瓶。  
जब स्याही, टैंक की उपरी लाइन पर पहुंच जाती है, तो बोतल को बाहर निकाल दें।

**6**

**7**

**8**

**9**

Off.  
熄滅。  
बंद।

Flashing.  
閃爍。  
फ्लैश हो रही है।

**10** Select a language.  
選擇語言。  
भाषा का चयन करें।

**11** When the message of seeing Start Here is displayed, hold down the **⏻** button for 5 seconds.  
顯示查看安裝說明的訊息時，請按住 **⏻** 鍵 5 秒。  
जब यहाँ आरंभ करें का संदेश प्रदर्शित होता है, तो 5 सेकंड तक **⏻** बटन दबाए रखें।

**12** Confirm that the tanks are filled with ink, and then press the **⏻** button to start charging ink. Charging ink takes about 11 minutes.  
確認墨水槽已填充墨水，然後按下 **⏻** 鍵以開始填充墨水。填充墨水需要約 11 分鐘。  
पुष्टि करें कि टैंक स्याही से भरे हुए हैं, और फिर स्याही चार्ज शुरू करने के लिए **⏻** बटन दबाएं। स्याही चार्ज होने में लगभग 11 मिनट लगते हैं।

**13** When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.  
When the paper loading message is displayed, see step **14**.  
填充墨水完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。依據畫面說明執行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 **14**。  
जब स्याही चार्ज का काम पूरा हो जाता है, तो प्रिंट गुणवत्ता एडजस्टमेंट स्क्रीन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। जब कागज़ लोड होने का संदेश प्रदर्शित होता है, तब चरण **14** देखें।

**14** Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.  
將 A4 尺寸的普通紙裝入紙張支撐板中央，並以可列印面向上。  
प्रिंट करने वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखकर कागज़ सहायता के केंद्र में A4 आकार के सादे कागज़ को लोड करें।

15 If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank. See steps 1 to 3 in section 2.

如果各墨水瓶內有剩餘墨水，請在大容量墨水槽填充墨水。請參閱第 2 節中的步驟 1 至 3。

अगर हर एक बोतल में स्याही बाकी बची हो, तो स्याही टैंक को रीफिल करें। सेक्शन 2 में चरण 1 से 3 देखें।

16 Visit the website to install software and configure the network. If your printer comes with a CD, you can also use that (Windows only). When these operations are complete, the printer is ready for use.


瀏覽網站以安裝軟體和組態網路。如果您的印表機附帶 CD，您也可以使用它（僅限 Windows）。完成這些操作後，印表機已做好使用準備。

सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क को कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। यदि आपका प्रिंटर CD के साथ आता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं (केवल Windows)। जब ये ऑपरेशन पूरे हो जाते हैं, तब प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

ET-2840 Series  
<https://epson.sn/2840>

L3560 Series  
<https://epson.sn/3560>

## Guide to Control Panel / 控制面板說明 / कंट्रोल पैनल के लिए गाइड






	Turns the printer on or off. 開啟或關閉印表機的電源。 प्रिंटर को चारू या बंद करता है।
	Displays the home screen. 顯示主畫面。 होम स्क्रीन प्रदर्शित करता है।
	Displays the solutions when you are in trouble. 在您遇到問題時顯示解決方法。 आपको समस्या होने पर, समाधान प्रदर्शित करता है।
	Use the ▲▼▶◀ buttons to select a menu, and then press the <b>OK</b> button to enter the selected menu. 使用 ▲▼▶◀ 鍵選擇選單，然後按下 <b>OK</b> 鍵進入選取的選單。 मेन्यू चुनने के लिए ▲▼▶◀ बटनों का उपयोग करें, और फिर चयनित मेन्यू को चुनने के लिए <b>OK</b> बटन दबाएँ।
	Stops the current operation. 停止目前的操作。 मौजूदा संचालन को रोकता है।
	Starts an operation such as printing or copying. 開始操作，例如列印或複印。 प्रिंटिंग या कॉपी करने जैसे ऑपरेशन को शुरू करता है।
	Applies to a variety of functions depending on the situation. 可用的功能視情況而有所不同。 स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के फंक्शन पर लागू होता है।
	Returns to the previous screen. 返回上一個畫面。 पिछली स्क्रीन पर लौटता है।

A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the *User's Guide* for more details.  
如果出現需要您注意的錯誤或資訊，液晶螢幕會顯示代碼。如需更多詳細資訊，請參閱隨附使用說明。

यदि कोई ऐसी त्रुटि या जानकारी है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो LCD स्क्रीन पर कोड प्रदर्शित होता है। अधिक विवरण के लिए **उपयोगकर्ता गाइड** देखें।



## Copying / 複印 / कॉपी बनाना



4 Select **Copy** on the control panel.  
在控制面板上選取複印。  
कंट्रोल पैनल पर **कॉपी** करें चुनें।

5 Select **Color** or **B&W**, and then set the number of copies.  
選擇彩色或黑白，然後設定複製份數。  
रंग या **श्वेत-श्याम** का चयन करें, और फिर प्रतियों की संख्या सेट करें।


6 Make other settings as necessary.  
根據需要進行其他設定。  
आवश्यकानुसार अन्य सेटिंग्स करें

7 Press the **Start** button to start copying.  
按下 **Start** 鍵以開始複印。  
कॉपी करना शुरू करने के लिए **Start** बटन दबाएँ।

## Checking Ink Levels and Refilling Ink / 檢查墨水量及填充墨水 / स्याही के स्तर और स्याही रीफिल की जांच करना

1 Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps 1 to 3 in section 2 to refill the tank.  
檢查墨水量。如果任何墨水存量低於最低標示線，請參閱第 2 節內的步驟 1 至 3 以重新填充大容量墨水槽。

स्याही के स्तर की जांच करें। अगर कोई भी स्याही का लेवल, निचली लाइन के नीचे है, तो टैंक को रीफिल करने के लिए सेक्शन 2 में चरण 1 से 3 देखें।



To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.

若要確認實際的剩餘墨水量，請目視檢查印表機的所有大容量墨水槽的墨水量。若在墨水存量低於最低標示線時繼續使用印表機，可能導致印表機損壞。

यह पुष्टि करने के लिए प्रिंटर के सभी टैंकों में स्याही स्तर की जांच करें कि असल में कितनी स्याही शेष है। स्याही का स्तर नीचे होने पर प्रिंटर का लंबे समय तक उपयोग करने से प्रिंटर को नुकसान पहुंच सकता है।

2 Select **Maintenance** > **Fill Ink** on the control panel.  
在控制面板上選取維護 > 填充墨水。  
कंट्रोल पैनल पर **रखरखाव** > **स्याही भरें** का चयन करें।

3 Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.  
依照液晶螢幕上的指示重置墨水量。  
स्याही के स्तर को रीसेट करने के लिए, LCD स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

If you do not reset the ink level, the ink level displayed does not change even after refilling the ink.

如果您未重置墨水量，即使重新填充墨水後，顯示的墨水量也不會變化。

यदि आप स्याही लेवल को रीसेट नहीं करते हैं, तो प्रदर्शित स्याही लेवल स्याही के रीफिल के बाद भी नहीं बदलता है।

## Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / स्याही बोतल कोड

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए

	BK	C	M	Y
ET-2840 Series			104	
L3560 Series			103	

For Australia and New Zealand

	BK	C	M	Y
				522

For Asia / 對於亞洲 / एशिया के लिए






	BK	C	M	Y
				003

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.


若使用指定墨水以外的 Epson 原廠墨水，可能導致不在 Epson 保固範圍內的損壞。

जेन्युइन Epson स्याही की जगह अन्य स्याही का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।



## Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / पेपर जाम हटाना




5 Close. For safety, the unit is closed in two steps.  
關閉。出於安全考慮，裝置分兩步關機。  
बंद करें। सुरक्षा के लिए, यूनिट दो चरणों में बंद होती है।



The unit must be closed completely before it can be opened again.  
裝置再次開啟前，必須完全關機。  
दोबारा खोलने से पहले यूनिट को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।



## Troubleshooting / 故障排除 / समस्या निवारण



See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

若需詳細資訊，請參考隨附使用說明。這將為您提供操作、安全和故障排除操作說明，例如清除夾紙或調整列印品質。您可從以下網站獲取所有最新版指南。

विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन **उपयोगकर्ता गाइड** देखें। इसमें आपको परिचालन की सुरक्षा और समस्या निवारण, जैसे पेपर जाम होने या प्रिंट गुणवत्ता को एडजस्ट करने, के निर्देश मिलते हैं। आपको नीचे दी गई वेबसाइट से सभी मार्गदर्शिकाओं के नवीनतम संस्करण प्राप्त हो सकते हैं।

ET-2840 Series



<https://epson.sn/2840>

L3560 Series



<https://epson.sn/3560>

## Support / 支援 / सहायता





For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप के बाहर के लिए

<http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए

<http://www.epson.eu/support>

## Storing and Transporting / 存放及搬運 / भंडारण और परिवहन



1 Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.  
2 If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.

3 **務必在鎖緊瓶蓋時使墨水瓶保持直立。將印表機和墨水瓶分別放入袋中。存放及搬運時，請使印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會滲出。**  
4 **如果下次列印時發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。**

5 **ठक्कन को कस कर बंद करते समय स्याही की बोतल को सीधा रखना सुनिश्चित करें। प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग-अलग रखें और प्रिंटर को संग्रहीत करने या उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के समय प्रिंटर का लेवल बनाए रखें। वरना स्याही लीक हो सकती है।**

6 **अगर प्रिंट की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार प्रिंट करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।**

## Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

L3560

□ 產品名稱：多功能印表機  
□ 額定電壓：AC 100-240 V  
□ 額定頻率：50-60 Hz  
□ 耗電量：

■ 單機複印時：約 12 W  
■ 就緒模式：約 7.1 W  
■ 睡眠模式：約 0.8 W  
■ 關機模式：約 0.2 W

□ 額定電流：0.4-0.2 A

製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

警告

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

□ 列印方式：微針點壓電噴墨技術  
□ 解析度：最大可達 4800 x 1200 dpi  
□ 適用系統：  
Windows Vista\*, Windows\* 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 以上版本  
Windows XP SP3(32-bit)  
Windows XP Professional x64 Edition SP2  
Windows Server\* 2003(SP2) 以上版本  
(\* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)  
Mac OS X 10.9.5 以上版本, macOS 11 以上版本

使用方法

請參閱線上使用手冊

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔掉印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

□ 電源線或插頭損壞  
□ 有液體噴灑到印表機  
□ 印表機摔落或機殼損壞  
□ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

注意事項

□ 只能使用印表機機體上所註明的電源規格。

□ 請保持工作場所的通風良好。

\* 限用物質含有情況：標示內容，請至下列網址查詢。

URL：http://www.epson.com.tw/TW\_RoHS

NCC 警語

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規動作之無線電通信。  
低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPGVG: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Дія польової мережі в Росії не є обов'язковою. 5 Net.

AEEE Yönetmelğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda bavyuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

